

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062023-246314  
SG-DL-E-06062023-246314असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                  |                        |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|
| सं. 171] | दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2023/ज्येष्ठ 16, 1945    | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 87 |
| No. 171] | DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2023/ JYAISHTHA 16, 1945 | [N. C. T. D. No. 87    |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 6 जून, 2023

सं. फां. 6/1/2015-न्याय/अधी.विधि./1095-1103.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं:—

- श्री विरेन्द्र कुमार बंसल, जो ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत पहले से ही प्रधान जिला न्यायाधीश हैं, की नियुक्ति, श्री धर्मेश शर्मा के दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के परिणाम स्वरूप, प्रधान जिला न्यायाधीश के पद की हुई रिक्ति की तिथि से, नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में करते हैं।
- सुश्री सीमा मैनी की नियुक्ति, प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS****NOTIFICATION**

Delhi, the 6th June, 2023

**No. F. 6/1/2015-Judl./ Suptlaw/1095-1103.**—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges, as under: -

1. Appointment of Mr. Virender Kumar Bansal, already Principal District Judge under next below rule, as Principal District Judge on regular basis from the date the vacancy of the Principal District Judge has arisen consequent upon elevation of Mr. Dharmesh Sharma as Judge of High Court of Delhi; and
2. Appointment of Ms. Seema Maini as Principal District Judge under next below rule with effect from the date she takes over.

By Order and in the Name of Lt. Governor of  
Government of National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.